

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।**

पत्रांक - 1405 / सिकहरना, ढाका, दिनांक- 20.09.22

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।


विषय :- M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना हेतु आवंटन अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054) New Maintenance Police 2018 योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
सिकहरना, ढाका।  
20.9.22

# Rural Works Department

Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date	Administrative Approval		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	RM/EA/SIK/19/0018	Dipahi Chowk to Madhopur		3034/16.07.2019	2.000	85.95580	59.28299	19.91889	07 MBD-05.02.2022	04.11.2022		3152	25	5	0.00	0.00	58.25000	
Total :-															0.00	0.00	58.25000	

प्रमाणित किया जाता है कि एष में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कनीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अखोहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

*[Signature]*  
30/09/2022  
Junior Engineer  
RWD (W) Div. Dhaka

*[Signature]*  
30/09/2022  
Assistant Engineer  
RWD (W) Div. Dhaka

*[Signature]*  
30/09/22  
Divisional Accounts Officer  
Rural Works Div, Dhaka

*[Signature]*  
30/09/22  
Executive Engineer  
RWD (W) Div. Dhaka

**FORM GFR 19-A**

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

**Form of Utilization Certificate Upto the Month of upto.....****MR-3054 (New Maintenance Policy)****PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. .... Lacs received the year 2022-23 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs. .... lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs. .... Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

*30/9-22*  
**Divisional Account Officer**  
**R.W.D. (W) Div., Dhaka**

**Kind of Checks Exercised :-**

- (i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (ii) Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- (iii) Construction material have been tested.
- (iv) Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- (v) All other codal Formalities have been observed.

**Physical Progress achieved :-**

- (i) Construction of Road Works.
- (ii) Construction of CD Works.

*30/9-22*  
**Executive Engineer**

**R.W.D.(W) Div., Dhaka**

<b>Name of Customer :</b>	M/S M.S. Enterprises
<b>Name of Work/ Road :</b>	Dihpahi Chowk to Madhopur
<b>Lab Job number :</b>	
<b>Date :</b>	23-09-2022
<b>Section No.</b>	55

<b>Test Date :</b>	23-09-2022	<b>Road Name :</b>	Dihpahi Chowk to Madhopur
<b>Machine No :</b>	437	<b>Road Type :</b>	(R) RURAL ROAD
<b>Start S No :</b>		<b>Side :</b>	
<b>Start E No :</b>		<b>Interval</b>	
<b>Weather :</b>	Normal	<b>UV Range :</b>	1328 To 5000 mm/Km
<b>Start Location :</b>		<b>Dist Range :</b>	0 To 2 0.1 * 1000 m
<b>End Location :</b>		<b>Equation :</b>	$Y = 0 * X^2 + 0.954 * X + 134.5$

**Print** **Generate Report and Graph**

**Redraw Graph**

**Map View**

File : D:\2022\Bump Integrator 2022\Pakridayal Div Rd Bump\Bumb 23.9.22\Bump 0 23.9.22 Rd6.ed\23092014.xls.  
 Name of Customer : M/S M.S. Enterprises, Name of Work/ Road : Dihpahi Chowk to Madhopur, Lab Job number :

